



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 30.12.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत खीरी पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 बालक का रेस्क्यू कर बाल कल्याण समिति के सुपुर्द किया गया



श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुक्रम में दिनांक 26-12-20 से "बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन" हेतु 15 दिवसीय जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उक्त क्रम में दिनांक 29-12-20 व 30-12-20 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में जनपद खीरी पुलिस व चाइल्ड केयर हेल्पलाइन की संयुक्त टीम द्वारा अभियान चलाकर शहर लखीमपुर क्षेत्र स्थित बस स्टैंड, संकटा देवी मंदिर चौराहा, मुख्य बाजार, मॉल आदि स्थानों व थाना खीरी क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर व दबिश देकर 01 बच्चे को रेस्क्यू किया गया तथा बाल कल्याण समिति जनपद खीरी के समक्ष फार्म नंबर 17 भरकर प्रस्तुत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की गई। इसके साथ ही टीम द्वारा बाल भिक्षावृत्ति के रोकथाम हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कर लोगो को जागरूक भी किया जा रहा है।

टीम के सदस्यों के नाम

- 1- श्री पान सिंह- प्रभारी निरीक्षक थाना एएचटीयू
- 2- उ०नि० नवीन द्विवेदी, थाना खीरी
- 3- आरक्षी आशीष सिंह चौहान, एएचटीयू
- 4- आरक्षी अनुभव पांडेय, एएचटीयू
- 5- आरक्षी राजेश यादव, एएचटीयू
- 6- महिला आरक्षी सुधा, महिला थाना
- 7- महिला आरक्षी निधि, महिला थाना
- 8- महिला आरक्षी प्रीति मलिक, थाना खीरी
- 9- संजय कुमार, एनजीओ
- 10-चाइल्ड केयर हेल्पलाइन टीम खीरी

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना पलिया पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 604/20 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त रामसक्ल पुत्र वेदराम नि० बसंतापुरवा थाना पलिया जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना फूलबेहड़ पुलिस द्वारा अं०सं० 1/17 धारा सी-8/70 में वारण्टी अभियुक्त जगमोहन पुत्र कनरैजी लाल नि० टनाजा थाना फूलबेहड़ जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 38 लीटर अवैध कच्ची शराब, 01 अवैध भट्टी बरामद कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना भीरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना ईसानगर	18 लीटर	03 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	38 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार